

नकली होने की शंका में 1500 किलो मावा पकड़ा

नागदा जंक्शन (नईदुनिया न्यूज)। खाद्य एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रविवार को नागदा स्टेशन के बाहर से दो वाहन से 1500 किलो मावा नकली होने की शंका में जब्त किया। दोनों वाहनों को पुलिस थाने में लाकर सैंपलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान खाद्य विभाग के तीन अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रतिदिन बड़ी मात्रा में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों स

Publish Date: | Sun, 05 Dec 2021 11:35 PM (IST)



नागदा जंक्शन (नईदुनिया न्यूज)। खाद्य एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रविवार को नागदा स्टेशन के बाहर से दो वाहन से 1500 किलो मावा नकली होने की शंका में जब्त किया। दोनों वाहनों को पुलिस थाने में लाकर सैंपलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान खाद्य विभाग के तीन अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रतिदिन बड़ी मात्रा में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से मावा बाहर भेजा जाता है। खाद्य एवं पुलिस विभाग की टीम ने रविवार की सुबह पांच बजे से मावे की बड़ी खेप लगाने वाले पर निगरानी रखी। दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे वाहन एमपी-07-एल-3771 एवं एमपी-07-एल-3471 जैसे ही स्टेशन परिसर में पहुंचे, खाद्य एवं पुलिस विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दी। दोनों वाहनों को टीम पुलिस थाना परिसर में लेकर पहुंची। वाहन क्रमांक एमपी-07-एल-3771 में 25 किलो के 35 मावे की पोटली मिली। लगभग 8 क्विंटल 750 ग्राम मावा था। फूड एंड सेफ्टी अधिकारी बसंतदत्त कुमार ने बताया कि दोनों वाहन उन्हेल से नागदा आए थे, जिसमें नकली मावा होने की लगातार शिकायत मिल रही थी। रविवार की सुबह पांच बजे विभाग के मुखबीर को नागदा स्टेशन व आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया गया। शाम साढ़े तीन बजे सफलता मिली। एक अन्य वाहन एमपी-07-एल-3471 में 7 क्विंटल मावा मिला। टीम ने मावे की पोटली से 250 ग्राम मावा लेकर सैंपलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान खाद्य अपमिश्रण अधिकारी मनीष स्वामी, बीएल देवलिया, सलीम खान, टीआइ श्यामचंद्र शर्मा, आरक्षक संदीप यादव, यशपालसिंह सिसोदिया, विजय मीणा आदि मौजूद रहे।

कोड वर्ड से होती माल की डिलीवरी

शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से इतनी अधिक मात्रा में मावा मुंबई सहित बड़े शहरों में प्रतिदिन जा रहा है, जबकि क्षेत्र में मावे का इतना उत्पादन नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि मावे की पोटली में किसी भी फर्म का नाम अंकित नहीं किया जाता है। सिर्फ कोड वर्ड में ही माल की डिलीवरी हो जाती है नकली मावे की पहचान के लिए पोटली पर वी लिखकर गोला लगा दिया जाता है।

वाहन चालक को जानकारी नहीं

खाद्य विभाग की टीम ने दोनों वाहनों से इतनी बड़ी मात्रा में मावा जब्त किया। वाहन चालक को सिर्फ माल को नागदा स्टेशन पर खाली करने का काम सौंपा जाता है, जबकि नागदा स्टेशन से माल लोड करने की जिम्मेदारी अन्य व्यक्ति की होती थी। कार्रवाई के बाद नकली मावे का व्यापार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया।

दो वाहनों से लगभग 1500 किलो मावा पकड़ा है, जिसकी सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलिंग की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/ujjain-1500-kg-mava-caught-on-suspicion-of-being-fake-ujjain-news-mp-7165275>